

उत्तराखण्ड शासन
सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग-1
संख्या:-430 / xiv-2 / 2018-05(09) / 2016
देहरादून, दिनांक : 13 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-6-14/2015-Credit-I दिनांक 13-9-2017 के अनुक्रम में राज्य की समस्त 759 बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ (PACS) का कम्प्यूटरीकरण (Computerisation) कराये जाने हेतु सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति" (SIMC) का एतद्द्वारा निम्नवत गठन किया है :-

1. सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन - सदस्य।
2. निबन्धक, सहकारी समिति, उत्तराखण्ड - सदस्य।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून - सदस्य।
4. जिला सहकारी बैंक से 03 महाप्रबन्धक (By Rotation) - सदस्य।
5. तकनीकी वेण्डर - विशेष आमंत्रित सदस्य।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक - सदस्य सचिव।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या:-430 / xiv-2 / 2018-05(09) / 2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्धक निदेशक, राज्य सहकारी बैंक, हल्द्वानी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।